

## ईरान-भारत व्यापार संबंधों में सुधार

### चर्चा में क्यों?

अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में सुधार की संभावनाएँ तलाश रहा है जिसमें बैंकिंग चैनल का वसितार भी शामिल है।

### प्रमुख बंदि

- ईरान और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये ईरान का सात सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर रहा है।
- भारत का दौरा कर रहे संसदीय प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि दोनों पक्षों को सीमा शुल्क कम करने के लिये मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है ताकि द्विपक्षीय व्यापार में सुधार किया जा सके।
- ईरान और भारत के बीच लगभग 10-13 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें सुधार की प्रबल संभावना है।
- ईरान की संसद ने दोहरे कर से बचने के लिये हाल ही में एक समझौते को मंजूरी दी है।
- ईरान के साथ व्यापार संबंधों में केवल यूको बैंक ही संलग्न है जसिं और ज़्यादा वसितार देने की आवश्यकता है।

### अमेरिकी प्रतिबंध पर ईरान का रुख

- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का वरिध करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह रोक और प्रतिबंध हमारी आज़ादी की कीमत है। प्रतिनिधिमंडल का यह भी कहना था कि हमने न्यूक्लियर डील की सारी शर्तों को पूरा किया है इसके बावजूद ऐसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
- [अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान में 14 बार जाँच पड़ताल की और यह पाया है कि ईरान परमाणु डील की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है।](#) अमेरिका मानवाधिकारों का हवाला देते हुए ईरान पर दबाव बना रहा है।

### क्या है न्यूक्लियर डील, 2015?

- 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ब्रिटन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ मलिकर ईरान ने परमाणु समझौता किया था।
- इस डील को ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) नाम दिया गया।
- इस डील के अनुसार, ईरान को संबंधित यूरेनियम के भंडार में कमी लाते हुए अपने परमाणु संयंत्रों की नगिरानी के लिये अनुमति प्रदान करनी थी।
- इसके बदले ईरान पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत दी गई थी।

### प्रतिबंध दोबारा क्यों लगे?

- कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौते से यह कहते हुए अलग हो गए कि ईरान चोरी-छपि अपने परमाणु कार्यक्रम को अभी भी जारी रखे हुए है।
- साथ ही उन्होंने ईरान पर तेल एवं बैंकिंग संबंधी प्रतिबंध पुनः आरोपित कर दिये।
- हालाँकि इस डील के अन्य हस्ताक्षरकर्ता देश जैसे- जर्मनी, ब्रिटन, फ्रांस, रूस और चीन अभी भी इस डील को जारी रखे हुए हैं।
- वही, ईरान अभी भी इस डील से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह डील कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों पर रोक लगाती है।
- लेकिन यह तभी होगा जब तीन यूरोपियन शक्तियों सहित रूस और चीन अपने व्यापार-लाभों को संरक्षित रखने के लिये प्रतिबंध होंगे।

### भारत-ईरान: हालिया संबंध

- पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ईरान ने भारत के लिये हाल ही में नत्थी (Stapled) वीज़ा और ई-वीज़ा की शुरुआत की है। ईरान ने भारत के लिये वीज़ा ऑन अराइवल की भी शुरुआत की है।
- भारत ने मई 2016 में ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक त्रिपक्षीय कनेक्टिविटी सौदे पर हस्ताक्षर किये जो उसे पाकिस्तान को बाईपास कर

यूरोप तथा मध्य एशिया तक पहुँचने की अनुमति देता है।

- इस कनेक्टविटी समझौते का केंद्र चाबहार बंदरगाह है, जिसका प्रबंधन 18 महीने तक भारत को दिया गया था।
- इसके माध्यम से भारत के लिये समुद्री सड़क मार्ग द्वारा अफगानिस्तान पहुँचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इस स्थान तक पहुँचने के लिये पाकिस्तान के रास्ते की आवश्यकता भी नहीं होगी।
- चाबहार बंदरगाह ईरान के अर्द्ध-रेगिस्तानी मकरान तट पर स्थित है, जो अफगानिस्तान के लिये समुद्र के सबसे छोटे मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

और पढ़ें...

[भारत-ईरान संबंध और ट्रंप](#)

[ईरान न्यूक्लियर डील से वैश्विक संकट](#)

[अमेरिका ने ईरान पर फरि से लगाए प्रतिबंध : क्या हैं इन प्रतिबंधों के मायने](#)

[ईरान द्वारा न्यूक्लियर डील, 2015 का अनुपालन बरकरार : आईएईए](#)

[भारत को मिला चाबहार बंदरगाह का पर्यायन अधिकार](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/iran-seeks-improved-trade-ties-with-india>

